

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगरीय परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | JHANKAR | झाकर | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 2 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | JHANKAR BARWANI ROAD PAR | झाकर बड़वानी रोड पर | 1100 | 1100 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | 840000 | 840000 | 0.00% | 420000 | 420000 | 0.00% | | |
| 3 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | MANSUR | मन्सूर | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 440000 | 440000 | 0.00% | 220000 | 220000 | 0.00% | | |
| 4 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | MANSUR BARWANI ROAD PAR | मन्सूर बड़वानी रोड पर | 1100 | 1100 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | 840000 | 840000 | 0.00% | 420000 | 420000 | 0.00% | | |
| 5 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | SIDADI | सिदड़ी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 330000 | 330000 | 0.00% | 165000 | 165000 | 0.00% | | |
| 6 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | SULGAON | सुलगांव | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 330000 | 330000 | 0.00% | 165000 | 165000 | 0.00% | | |
| 7 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | SULGAON ROAD PAR | सुलगांव रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | 200000 | 200000 | 0.00% | | |
| 8 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | VAJHAR | वज़र | 1000 | 1000 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | 740000 | 740000 | 0.00% | 370000 | 370000 | 0.00% | | |
| 9 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 1 | VAJHAR ROAD PAR | वज़र रोड पर | 1100 | 1100 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | | |
| 10 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | BHURAPANI ROAD PAR | भुरापानी रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 11 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | BHURAPANI ROAD SE ANDAR | भुरापानी रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 12 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | GAWADI A.B. ROAD SE ANDAR | गवाड़ी ए.बी. रोड से अन्दर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 2200000 | 2200000 | 0.00% | 1100000 | 1100000 | 0.00% | | |
| 13 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | GAWADI A.B. ROAD SE PAR | गवाड़ी ए.बी. रोड पर | 1500 | 1500 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | 3500000 | 3500000 | 0.00% | 3500000 | 3500000 | 0.00% | | |
| 14 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | JAMANYA A.B. ROAD PAR | जामन्या ए.बी. रोड पर | 1500 | 1500 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 15 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | JAMANYA A.B. ROAD SE ANDAR | जामन्या ए.बी. रोड से अन्दर | 1100 | 1100 | 0.00% | 1100 | 1100 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | RAI AB ROAD PAR | राई एबी रोड पर | 1100 | 1100 | 0.00% | 1100 | 1100 | 0.00% | 850000 | 850000 | 0.00% | 425000 | 425000 | 0.00% | | |
| 17 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | RAI AB ROAD SE ANDAR | राई एबी रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 18 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | RAM MALIVAN | राम मलीवन | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 19 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | SENGVI | संगवी | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 20 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | UMRIAPANI ROAD PAR | उमरियापानी रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 650000 | 650000 | 0.00% | 325000 | 325000 | 0.00% | | |
| 21 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 10 | UMRIAPANI ROAD SE ANDAR | उमरियापानी रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 22 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | DAAK BUNGLOW KE PEECHHE MAIN ROAD SE 300 FEET PASHCHAT | डाक बंगले के पीछे मेन रोड से ३०० फीट पश्चात् | 4000 | 4000 | 0.00% | 8000 | 8000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 23 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA BUJURG | गुमड़िया बुजुर्ग | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 24 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA KHURD | गुमड़िया खुर्द | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 25 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA KHURD ROAD PAR | गुमड़िया खुर्द रोड पर | 1100 | 1100 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 26 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA VAN | गुमड़िया वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 440000 | 440000 | 0.00% | 220000 | 220000 | 0.00% | | |
| 27 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA VAN ROAD PAR | गुमड़िया वन रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | 275000 | 275000 | 0.00% | | |
| 28 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | JAMNIYA | जामन्या | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | 175000 | 175000 | 0.00% | | |
| 29 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | JAMNIYA ROAD PAR | जामन्या रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | 200000 | 200000 | 0.00% | | |
| 30 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NANIJHIRI | नानीझिरी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 450000 | 450000 | 0.00% | 225000 | 225000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NANIJHIRI ROAD PAR | नानीझिरी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 32 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI BUJURG | निवाली बुजुर्ग | 3000 | 3000 | 0.00% | 6000 | 6000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 33 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI BUJURG ROAD PAR | निवाली बुजुर्ग रोड पर | 4000 | 4000 | 0.00% | 8000 | 8000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 34 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI KHURD | निवाली खुर्द | 1000 | 1000 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | | |
| 35 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 1 - BUS STAND NIWALI SE PANSEMAL ROAD PAR R.T.O. BAREER TAK MAIN ROAD KA PICHHLA HISSA | निवाली वार्ड 1 - बस स्टेण्ड निवाली से पानसेमल रोड पर आर.टी.ओ. बेरियर तक मेन रोड का पिछला हिस्सा | 7000 | 7000 | 0.00% | 14000 | 14000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 36 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 1 - BUS STAND NIWALI SE PANSEMAL ROAD PAR R.T.O. BAREER TAK MAIN ROAD KE DONO AUR | निवाली वार्ड 1 - बस स्टेण्ड निवाली से पानसेमल रोड पर आर.टी.ओ. बेरियर तक मेन रोड के दोनो ओर | 10000 | 10000 | 0.00% | 20000 | 20000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 37 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 2 - NIWALI PANSEMAL ROAD PAR RTO BAREER SE KANYA KRIDA PARISAR TAK MAIN ROAD KE DONO AUR 100 FEET TAK | निवाली वार्ड 2 - निवाली पानसेमल रोड पर आर.टी.ओ. बेरियर से कन्या क्रीडा परिसर तक मेन रोड के दोनो ओर १०० फीट तक | 7500 | 7500 | 0.00% | 15000 | 15000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 38 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 2 - NIWALI PANSEMAL ROAD PAR RTO BAREER SE KANYA KRIDA PARISAR TAK MAIN ROAD KE DONO AUR KA PICHHALA BHAG 100 SE 300 FEET TAK | निवाली वार्ड 2 - निवाली पानसेमल रोड पर आर.टी.ओ. बेरियर से कन्या क्रीड़ा परिसर तक मेन रोड के दोनो ओर का पिछला भाग १०० फीट से ३०० फीट तक | 5500 | 5500 | 0.00% | 11000 | 11000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 39 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 2 - NIWALI PANSEMAL ROAD PAR RTO BAREER SE KANYA KRIDA PARISAR TAK MAIN ROAD KE DONO AUR KA PICHHALA BHAG 300 FEET PASHCHAT | निवाली वार्ड 2 - निवाली पानसेमल रोड पर आर.टी.ओ. बेरियर से कन्या क्रीड़ा परिसर तक मेन रोड के दोनो ओर का पिछला भाग 300 फीट पश्चात | 4000 | 4000 | 0.00% | 8000 | 8000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 40 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - MARKET KSHETRA KE ANTARGAT | निवाली वार्ड 3 - मार्केट क्षेत्र के अन्तर्गत | 16000 | 16000 | 0.00% | 32000 | 32000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 41 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - BUS STAND SE SENDHWA ROAD PULIYA TAK VARLAYAPAANI ROAD TAK KE DONO AUR MARKET KSHETRA KE ANTARGAT MAIN ROAD KA PICHHALA HISSA | निवाली वार्ड 3 - बस स्टेण्ड से सेधवा रोड पुलिया तक वरल्यापानी रोड तक के दोनो ओर मार्केट क्षेत्र के अन्तर्गत मेन रोड का पिछला हिस्सा | 10000 | 10000 | 0.00% | 20000 | 20000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 42 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - BUS STAND SE SENDHWA ROAD PULIYA TAK VARLYAPAANI ROAD TAK KE DONO AUR MARKET KSHETRA KE ANTARGAT MAIN ROAD PAR | निवाली वार्ड 3 - बस स्टैण्ड से सेधवा रोड़ पुलिया तक वरल्यापानी रोड़ तक के दोनो ओर मार्केट क्षेत्र के अन्तर्गत मेन रोड़ पर | 13000 | 13000 | 0.00% | 26000 | 26000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 43 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - SENDHWA ROAD PAR PULIYA KE BAAD VARALYAYAPAANI ROAD KE DONO AUR MUKHYA MARG PAR 300 FEET PASHCHAT | निवाली वार्ड 3 - सेधवा रोड़ पर पुलिया के बाद वरल्यापानी रोड़ के दोनों ओर मुख्य मार्ग पर 300 फीट पश्चात | 3500 | 3500 | 0.00% | 7000 | 7000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 44 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - SENDHWA ROAD PAR PULIYA KE BAAD VARLAYAYAPAANI ROAD KE DONO AUR MUKHYA MARG PAR 100 FEET TAK | निवाली वार्ड 3 - सेधवा रोड़ पर पुलिया के बाद वरल्यापानी रोड़ के दोनों ओर मुख्य मार्ग पर १०० फीट तक | 7500 | 7500 | 0.00% | 15000 | 15000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 45 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 3 - SENDHWA ROAD PAR PULIYA KE BAAD VARLYAPAANI ROAD KE DONO AUR MUKHYA MARG KA PICHHLA BHAAG 100 FEET SE 300 FEET TAK | निवाली वार्ड 3 - सेधवा रोड़ पर पुलिया के बाद वरल्यापानी रोड़ के दोनों ओर मुख्य मार्ग का पिछला भाग १०० फीट से ३०० फीट तक | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 46 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - BUS STAND SE PALSUD ROAD PAR KANYA CHHATRAWAS TAK MUKHYA ROAD KE DONO AUR ROAD KA PICHHALA BHAG | निवाली वार्ड 4 - बस स्टैंड से पलसुद रोड पर कन्या छात्रावास तक मुख्य रोड के दोनों ओर रोड का पिछला भाग | 9000 | 9000 | 0.00% | 18000 | 18000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 47 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - BUS STAND SE PALSUD ROAD PAR KANYA CHHATRAWAS TAK MUKHYA ROAD KE DONO AUR ROAD PAR | निवाली वार्ड 4 - बस स्टैंड से पलसुद रोड पर कन्या छात्रावास तक मुख्य रोड के दोनों ओर रोड पर | 12000 | 12000 | 0.00% | 24000 | 24000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 48 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PAR KANYA CHHATRAWAS SE LEKAR PULIYA TAK MUKHYA ROAD KE DONO AUR KA PICHHLA BHAAG 300 FEET PASHCHAT | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पर कन्या छात्रावास से लेकर पुलिया तक मुख्य रोड के दोनों ओर रोड का पिछला भाग ३०० फीट पश्चात् | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 49 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PAR KANYA CHHATRAWAS SE LEKAR PULIYA TAK MUKHYA ROAD KE DONO AUR KA PICHHLA BHAAG 100 SE 300 FEET PASHCHAT | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पर कन्या छात्रावास से लेकर पुलिया तक मुख्य रोड के दोनों ओर रोड का पिछला भाग १०० से ३०० फीट तक | 7000 | 7000 | 0.00% | 14000 | 14000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 50 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PAR KANYA CHHATRAWAS SE LEKAR PULIYA TAK MUKHYA ROAD KE DONO AUR ROAD PAR 100 FEET TAK | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पर कन्या छात्रावास से लेकर पुलिया तक मुख्य रोड के दोनों ओर रोड पर 100 फीट तक | 9000 | 9000 | 0.00% | 18000 | 18000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 51 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PULIYA KE BAAD KA CHHETRA MUKHYA ROAD KE DONO AUR KA PICHHLA BHAAG 100 SE 300 FEET TAK | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पुलिया के बाद का क्षेत्र मुख्य रोड के दोनों ओर का पिछला भाग 100 से 300 फीट तक | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 52 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PULIYA KE BAAD KA CHHETRA MUKHYA ROAD KE DONO AUR KA PICHHLA BHAAG 300 FEET PASHCHAAT | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पुलिया के बाद का क्षेत्र मुख्य रोड के दोनों ओर का पिछला भाग 300 फीट पश्चात् | 3500 | 3500 | 0.00% | 7000 | 7000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 53 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 4 - PALSUD ROAD PULIYA KE BAAD KA CHHETRA MUKHYA ROAD KE DONO AUR 100 FEET TAK | निवाली वार्ड 4 - पलसुद रोड पुलिया के बाद का क्षेत्र मुख्य रोड के दोनों ओर 100 फीट तक | 7000 | 7000 | 0.00% | 14000 | 14000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | | |
| 54 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 5 - HANUMAAN CHOWK | निवाली वार्ड 5 - हनुमान चौक | 6500 | 6500 | 0.00% | 13000 | 13000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 55 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 6 - VAANI MOHALLA | निवाली वार्ड 6 - वाणी मोहल्ला | 6500 | 6500 | 0.00% | 13000 | 13000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 56 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 7 - GUMDIYA ROAD COLONIYA | निवाली वार्ड 7 - गुमडिया रोड कॉलोनिया | 6000 | 6000 | 0.00% | 12000 | 12000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 57 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | NIWALI WARD 8 - HARIJAN BASTI | निवाली वार्ड 8 - हरिजन बस्ती | 2200 | 2200 | 0.00% | 4400 | 4400 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगरीय परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रुपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रुपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रुपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रुपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 58 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | PICHHODI | पिछोड़ी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | 275000 | 275000 | 0.00% | | |
| 59 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | ROSHANI COLONY | रोशनी कॉलोनी | 5500 | 5500 | 0.00% | 11000 | 11000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 60 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SALUN | सलून | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 61 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SALUN ROAD PAR | सलून रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 540000 | 540000 | 0.00% | 270000 | 270000 | 0.00% | | |
| 62 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SALUN VAN | सलून वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 380000 | 380000 | 0.00% | 190000 | 190000 | 0.00% | | |
| 63 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SALUN VAN ROAD PAR | सलून वन रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 64 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SENDHWA ROAD PAR PULIYA KE BAAD VARLYAPAANI ROAD KE DONO AUR MUKHYA MARG KA PICHHLA BHAAG 300 FEET PASHCHAT | निवाली वार्ड 3 - सेंधवा रोड पर पुलिया के बाद वरल्यापानी रोड के दोनों ओर मुख्य मार्ग का पिछला भाग 300 फीट पश्चात् | 3500 | 3500 | 0.00% | 7000 | 7000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 65 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SUKH NIWAS COLONY | सुख निवास कॉलोनी | 3500 | 3500 | 0.00% | 7000 | 7000 | 0.00% | 1400000 | 1400000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | | |
| 66 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | TALAV | तलाव | 800 | 800 | 0.00% | 1600 | 1600 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | 275000 | 275000 | 0.00% | | |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | TALAV NIWALI ROAD PAR | तलाव निवाली रोड पर | 1000 | 1000 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | BUS STAND SE SENDHAWA ROAD PULIYA TAK SARKARI KUYEN KI AUR 300 FEET PASHCHAT | बस स्टेण्ड से सेंधवा रोड पुलिया तक, सरकारी कुए की ओर 300 फीट पश्चात | 0 | 6,000 | | 0 | 12,000 | | 0 | 1,400,000 | | 0 | 700,000 | | | NEW LOCATION |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | GUMDIYA ROAD PAR COLONIES KE BAAD | गुमडिया रोड पर कॉलोनियों के बाद | 0 | 5,000 | | 0 | 10,000 | | 0 | 1,400,000 | | 0 | 700,000 | | | NEW LOCATION |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगरीय परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | DHOBADIYA ROAD PAR | धोबी डया रोड पर | 0 | 5,500 | | 0 | 11,000 | | 0 | 1,400,000 | | 0 | 700,000 | | | NEW LOCATION |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SENDHAWA ROAD PAR BADGAON FAATE KE BAAD | सेधवा रोड पर बड़गांव फाटे के बाद | 0 | 6,000 | | 0 | 12,000 | | 0 | 2,000,000 | | 0 | 1,000,000 | | | NEW LOCATION |
| 67 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 2 | SENDHAWA ROAD KE ANDAR BADGAON FAATE KE BAAD | सेधवा रोड के अंदर बड़गांव फाटे के बाद | 0 | 4,000 | | 0 | 8,000 | | 0 | 1,400,000 | | 0 | 700,000 | | | NEW LOCATION |
| 68 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | DONGLIYAPANI | डोंगल्यापानी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 380000 | 380000 | 0.00% | 190000 | 190000 | 0.00% | | |
| 69 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | DONGLIYAPANI ROAD PAR | डोंगल्यापानी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 420000 | 420000 | 0.00% | 210000 | 210000 | 0.00% | | |
| 70 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | GAWALI | गवाली | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | 175000 | 175000 | 0.00% | | |
| 71 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | GHODLIYAPANI | घोडल्यापानी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | 175000 | 175000 | 0.00% | | |
| 72 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | JHARIMATA | झरीमाता | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 380000 | 380000 | 0.00% | 190000 | 190000 | 0.00% | | |
| 73 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | JHARIMATA ROAD PAR | झरीमाता रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 74 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | JHARIMATA VAN | झरीमाता वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 360000 | 360000 | 0.00% | 180000 | 180000 | 0.00% | | |
| 75 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | JHARIMATA VAN ROAD PAR | झरीमाता वन रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 420000 | 420000 | 0.00% | 210000 | 210000 | 0.00% | | |
| 76 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KANPURI | कानपुरी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 77 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KANPURI ROAD PAR | कानपुरी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 600000 | 600000 | -90.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | RATE CORRECTION |
| 78 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KHADAKI VAN | खड़की वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | 150000 | 150000 | 0.00% | | |
| 79 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KHAMPANI | खमपानी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 380000 | 380000 | 0.00% | 190000 | 190000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 80 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KHAMPANI ROAD PAR | खमपानी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 81 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KHAMPANI VAN | खमपानी वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 320000 | 320000 | 0.00% | 160000 | 160000 | 0.00% | | |
| 82 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KHAMPANI VAN ROAD PAR | खमपानी वन रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | 200000 | 200000 | 0.00% | | |
| 83 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KUSUMYA | कुसम्या | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | 175000 | 175000 | 0.00% | | |
| 84 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | KUSUMYA SENDHWA ROAD PAR | कुसम्या सेधवा रोड पर | 2200 | 2200 | 0.00% | 4400 | 4400 | 0.00% | 850000 | 850000 | 0.00% | 425000 | 425000 | 0.00% | | |
| 85 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | PURUSHKHEDA | पुरुषखेड़ा | 800 | 800 | 0.00% | 1600 | 1600 | 0.00% | 440000 | 440000 | 0.00% | 220000 | 220000 | 0.00% | | |
| 86 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | PURUSHKHEDA SENDHWA ROAD PAR | पुरुषखेड़ा सेधवा रोड पर | 1000 | 1000 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | 650000 | 650000 | 0.00% | 325000 | 325000 | 0.00% | | |
| 87 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | RAJMALI VAN | राजमली वन | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | 175000 | 175000 | 0.00% | | |
| 88 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | RAJMALI VAN ROAD PAR | राजमली वन रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 450000 | 450000 | 0.00% | 225000 | 225000 | 0.00% | | |
| 89 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | VARLIYAPANI | वरल्यापानी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 420000 | 420000 | 0.00% | 210000 | 210000 | 0.00% | | |
| 90 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 3 | VARLIYAPANI ROAD PAR | वरल्यापानी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 91 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | BADGAON | बड़गाँव | 800 | 800 | 0.00% | 1600 | 1600 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | 275000 | 275000 | 0.00% | | |
| 92 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | BADGAON ROAD PAR | बड़गाँव रोड पर | 1000 | 1000 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | 640000 | 640000 | 0.00% | 320000 | 320000 | 0.00% | | |
| 93 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | FULJWARI | फूलज्वारी | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | 275000 | 275000 | 0.00% | | |
| 94 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | FULJWARI ROAD PAR | फूलज्वारी रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 640000 | 640000 | 0.00% | 320000 | 320000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 95 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | MOHALIYA | मोहल्ल्या | 700 | 700 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | 380000 | 380000 | 0.00% | 190000 | 190000 | 0.00% | | |
| 96 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 4 | MOHALIYA ROAD PAR | मोहल्ल्या रोड पर | 900 | 900 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 480000 | 480000 | 0.00% | 240000 | 240000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 97 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | BHANGIDAD ROAD PAR | भंगीदड़ रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 520000 | 520000 | 0.00% | 260000 | 260000 | 0.00% | | |
| 98 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | BHANGIDAD ROAD SE ANDAR | भंगीदड़ रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 520000 | 520000 | 0.00% | 260000 | 260000 | 0.00% | | |
| 99 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | BUDHGAON ROAD PAR | बुधगांव रोड पर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 100 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | BUDHGAON ROAD SE ANDAR | बुधगांव रोड से अंदर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 101 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | DIWANI | दिवानी | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 102 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | KHEDI ROAD PAR | खेड़ी रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 103 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | KHEDI ROAD SE ANDAR | खेड़ी रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 104 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | MORGUN ROAD PAR | मोरगुन रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 105 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 5 | MORGUN ROAD SE ANDAR | मोरगुन रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 106 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | BHULGAON ROAD PAR | भुलगांव रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 520000 | 520000 | 0.00% | 260000 | 260000 | 0.00% | | |
| 107 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | BHULGAON ROAD SE ANDAR | भुलगांव रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 108 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | DONDWADA ROAD PAR | दोंदवाड़ा रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 109 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | DONDWADA ROAD SE ANDAR | दोंदवाड़ा रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 520000 | 520000 | 0.00% | 260000 | 260000 | 0.00% | | |
| 110 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | MOGARI KHED ROAD PAR | मोगरी खेड रोड पर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 111 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 6 | MOGARI KHED ROAD SE ANDAR | मोगरी खेड रोड से अंदर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 440000 | 440000 | 0.00% | 220000 | 220000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमांक |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 112 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | BHUJALA | भुजाला | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 113 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | BORALI | बोराली | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 114 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | JOGWADA ROAD PAR | जोगवाड़ा रोड़ पर | 1800 | 1800 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | 1100000 | 1100000 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | | |
| 115 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | JOGWADA ROAD SE ANDAR | जोगवाड़ा रोड़ से अन्दर | 1500 | 1500 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 116 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | KUKDIA ROAD PAR | कुकड़िया रोड़ पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 117 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | KUKDIA ROAD SE ANDAR | कुकड़िया रोड़ से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 118 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | SECOND MUHALI ROAD PAR | सेकंड मुहाली रोड़ पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 650000 | 650000 | 0.00% | 325000 | 325000 | 0.00% | | |
| 119 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | SECOND MUHALI ROAD SE ANDAR | सेकंड मुहाली रोड़ से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 120 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 7 | WASWI | वासवी | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 121 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | CHATLI ROAD KE ANDAR | चाटली रोड़ के अंदर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 1000000 | 1000000 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | | |
| 122 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | CHATLI ROAD PAR | चाटली रोड़ पर | 1500 | 1500 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 900000 | 900000 | 0.00% | | |
| 123 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | KHADKYA AB ROAD PAR | खड़क्या एबी रोड़ पर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | | |
| 124 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | KHADKYA ROAD SE ANDAR | खड़क्या एबी रोड़ से अन्दर | 1000 | 1000 | 0.00% | 1000 | 1000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |
| 125 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | MERKHEDI ADARSH NAGAR COLONY | मेरखेडी आदर्श नगर कॉलोनी, | 4300 | 4300 | 0.00% | 4300 | 4300 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | | |
| 126 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | MERKHEDI ROAD PAR 200 FEET SE 500 FEET TAK | मेरखेडी रोड़ पर 200 फीट से ५०० फीट तक | 4000 | 4000 | 0.00% | 4000 | 4000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 127 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | MERKHEDI ROAD PAR 200 FEET TAK | मेरखेड़ी रोड पर 200 फीट तक | 5000 | 5000 | 0.00% | 5000 | 5000 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | | |
| 128 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | MERKHEDI ROAD SE 500 FEET PASHCHAT | मेरखेड़ी रोड से ५०० फीट पश्चात | 3500 | 3500 | 0.00% | 3500 | 3500 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |
| 129 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | MERKHEDI SURAJ NAGAR | मेरखेड़ी सूरज नगर | 4300 | 4300 | 0.00% | 4300 | 4300 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | | |
| 130 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SAKAD ROAD PAR | साकड़ रोड पर | 1000 | 1000 | 0.00% | 1000 | 1000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 131 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SAKAD ROAD SE ANDAR | साकड़ रोड से अन्दर | 1000 | 1000 | 0.00% | 1000 | 1000 | 0.00% | 600000 | 600000 | 0.00% | 300000 | 300000 | 0.00% | | |
| 132 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SEWANTI NAGAR 500 FEET BAAD KE PLOT | सेवंती नगर 500 फीट बाद के प्लॉट | 2500 | 2500 | 0.00% | 2500 | 2500 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | | |
| 133 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SEWANTI NAGAR 500 FEET TAK | सेवंती नगर 500 फीट तक | 3800 | 3800 | 0.00% | 3800 | 3800 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | | |
| 134 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SILDAD ROAD KE ANDAR | सिलदड़ रोड के अंदर | 1000 | 1000 | 0.00% | 1000 | 1000 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 135 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | SILDAD ROAD PAR | सिलदड़ रोड पर | 1300 | 1300 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | 1100000 | 1100000 | 0.00% | 550000 | 550000 | 0.00% | | |
| 136 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8 | PIPALDHAAR GRAMIN KSHETRA KI ANYA BHUMIYA ROAD SE ANDER | पिपलधार ग्रामीण क्षेत्र की अन्य भूमियां रोड से अंदर | 0 | 2000 | | 0 | 3000 | | 0 | 1600000 | | 0 | 800000 | | | NEW LOCATION |
| 137 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | BHAISDAD ROAD PAR | भैंसदड़ रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 138 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | BHAISDAD ROAD SE ANDAR | भैंसदड़ रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 500000 | 500000 | 0.00% | 250000 | 250000 | 0.00% | | |
| 139 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | CHICHBA ROAD PAR | चिचबा रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 560000 | 560000 | 0.00% | 280000 | 280000 | 0.00% | | |
| 140 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | CHICHBA ROAD SE ANDAR | चिचबा रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 520000 | 520000 | 0.00% | 260000 | 260000 | 0.00% | | |
| 141 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | KANNADGAON ROAD PAR | कन्नड़गांव रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नॉनप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धिप्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धिप्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धिप्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धिप्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 142 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | KANNADGAON ROAD SE ANDAR | कन्नडगांव रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 700000 | 700000 | 0.00% | 350000 | 350000 | 0.00% | | |
| 143 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | KUNJARI ROAD PAR | कुंजरी रोड पर | 800 | 800 | 0.00% | 800 | 800 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |
| 144 | NIWALI | NON-PLANNING AREA | PATWARI HALKA 9 | KUNJARI ROAD SE ANDAR | कुंजरी रोड से अन्दर | 700 | 700 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | 800000 | 800000 | 0.00% | 400000 | 400000 | 0.00% | | |
| 145 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | ADVANTAGE EQUI FUND (AMAR KUMAR BHIKULAL AGRAWAL BIJASAN MATA KE PEECHHE | एडवॉंटेज इक्विफंड (अमर कुमार भिकुलाल अग्रवाल) बिजासन माता के पीछे | 3600 | 3600 | 0.00% | 7200 | 7200 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 146 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | DARUL ULUM KE PEECHHE PEEPALDHAR | दारुल उलूम के पीछे पीपलधार | 3300 | 3300 | 0.00% | 6600 | 6600 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 147 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | EKTA NAGAR | एकता नगर | 3800 | 3800 | 0.00% | 7600 | 7600 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 148 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | KHATRI COLONY | खत्री कॉलोनी | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 149 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | MECHENIC NAGAR AB ROAD PAR | मैकेनिक नगर एबी रोड पर | 9500 | 9500 | 0.00% | 19000 | 19000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 150 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | MECHENIC NAGAR AB ROAD SE ANDAR | मैकेनिक नगर एबी रोड से अंदर | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 151 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PEEPALDHAR CHRISTIOAN HOSPITAL KE PEECHHE | पीपलधार क्रिश्चन हॉस्पिटल के पीछे | 3600 | 3600 | 0.00% | 7200 | 7200 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 152 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR A.B. ROAD PAR 200 FEET TAK | पिपलधार ए.बी. रोड पर 200 फीट तक | 6000 | 6000 | 0.00% | 12000 | 12000 | 0.00% | 2800000 | 2800000 | 0.00% | 2800000 | 2800000 | 0.00% | | |
| 153 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR A.B. ROAD PAR 200 SE 500 FEET TAK | पिपलधार ए.बी. रोड पर 200 से 500 फीट तक | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 2800000 | 2800000 | 0.00% | 2800000 | 2800000 | 0.00% | | |
| 154 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR A.B. ROAD SE 500 FEET PASHCHAT | पिपलधार ए.बी. रोड से ५०० फीट पश्चात | 4000 | 4000 | 0.00% | 8000 | 8000 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | 1600000 | 1600000 | 0.00% | | |
| 155 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR BYPASS ROAD PAR 200 FEET SE 500 FEET TAK | पिपलधार बायपास रोड पर 200 फीट से ५०० फीट तक | 5000 | 5000 | 0.00% | 10000 | 10000 | 0.00% | 3000000 | 3000000 | 0.00% | 3000000 | 3000000 | 0.00% | | |

कार्यालय उप पंजीयक सेधवा/पानसेमल जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
गाइड लाइन वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित मूल्य तथा उनका वर्ष 2017-18 से तुलनात्मक (प्रतिशत में) विवरण

तहसील का नाम :- निवाली

| सक्र. | तहसील का नाम | प्लानिंग/नानप्लानिंग/नगर परिषद का नाम | वार्ड/पटवारी हल्के का नाम एवं क्रमांक | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम इंग्लिश में | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/रोड का नाम / गाँव का नाम हिन्दी में | आवासीय भूखंड (रूपये प्रति वर्ग मीटर) | | | व्यावसायिक भूखंड (रूपये प्रति वर्ग) | | | सिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | असिंचित कृषि भूमि (रूपये प्रति हेक्टेयर) | | | कमी/वृद्धि का कारण | रिमार्क |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | कमी/वृद्धि (प्रतिशत में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 156 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR BYPASS ROAD PAR 200 FEET TAK | पिपलधार बायपास रोड पर 200 फीट तक | 6000 | 6000 | 0.00% | 12000 | 12000 | 0.00% | 3000000 | 3000000 | 0.00% | 3000000 | 3000000 | 0.00% | | |
| 157 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | PIPALDHAAR BYPASS ROAD SE 500 FEET PASHCHAT | पिपलधार बायपास से ५०० फीट पश्चात | 4000 | 4000 | 0.00% | 8000 | 8000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | 2000000 | 2000000 | 0.00% | | |
| 158 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | RELIANCE PUMP KE AASHPAS KA CHHETRA | रिलायंस पंप के आसपास का क्षेत्र | 3900 | 3900 | 0.00% | 7800 | 7800 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 159 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | RELIANCE PUMP KE PEECHHE KA BHAG (PEEPALDHAR) | रिलायंस पंप के पीछे का भाग (पीपलधार) | 3700 | 3700 | 0.00% | 7400 | 7400 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 160 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | SHAKIL NAGAR (PEEPALDHAR) | शकील नगर (पीपलधार) | 3800 | 3800 | 0.00% | 7600 | 7600 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 161 | NIWALI | PLANNING AREA | PATWARI HALKA 8* | SUSUF ALI YAKUB ALI BEG KI BHUMI | यूसूफ अली याकुब बेग की भूमि | 3800 | 3800 | 0.00% | 7600 | 7600 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | 1800000 | 1800000 | 0.00% | | |
| 162 | NIWALI | | PATWARI HALKA 8* | EKTA NAGAR 200 FEET TAK | एकता नगर 200 फीट तक | | 3800 | | | 7600 | | | 1800000 | | | 1800000 | | | NEW LOCATION |
| 163 | NIWALI | | PATWARI HALKA 8* | EKTA NAGAR 200 FEET PASHCHAT PICHE KA SHETRA | एकता नगर 200 फीट पश्चात पीछे का क्षेत्र | | 2500 | | | 5000 | | | 1800000 | | | 1800000 | | | NEW LOCATION |